

UPN-C-23-11-0717

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE  
सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(Healthcare)  
(स्वास्थ्य देखभाल)



APPLICATION No.: **U/1123/1263**  
आवेदन संख्या:

APPLICATION DATE: **16/11/23**  
आवेदन तिथि

NAME of APPLICANT: **Kamal Singh**  
आवेदक का नाम

AGE-YEARS आयु-वर्ष  
**63**

SEX लिंग  
**M**

FATHER'S/SPOUSE'S NAME: **Teekam Singh**  
पिता/कटुम्ब का नाम



PASTE PHOTO HERE

**Preop Postop**

PRESENT RESIDENCE ADDRESS वर्तमान आवासीय पता  
**Ji-Kham gaon, Jikhangon, Chhatar**  
**Distt. Mathura, U.P. 281501**  
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थाई आवासीय पता  
**Same as above**

OCCUPATION: **labour**  
व्यवसाय

MARRIED (विवहित) /  UNMARRIED (अविवहित)

TOTAL ANNUAL INCOME: **50000/-**  
कुल वार्षिक आय

(Attach Proof of Income)  
(आप का साक्ष्य संलग्न) **NA**

PAN No. स्थाई खाता संख्या

ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable):  
क्या आप आय कर पता है (जो मान्य हो उस पर सही का चिह्न लगाएं)

Yes / No  
हां / नहीं

FAMILY DETAILS परिवार विवरण

Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध
1.	<b>Lakshmi</b>	<b>61</b>	<b>F</b>	<b>Wife</b>
2.	<b>Raja</b>	<b>35</b>	<b>M</b>	<b>son</b>
3.	<b>Doly</b>	<b>33</b>	<b>F</b>	<b>Daughter in law</b>

BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable)  
सहायता के लिए विनति आधार

<input type="checkbox"/> BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रेषा के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र को छाया प्रति संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> EWS Certificate (Attach Certificate Copy) अल्प आय वर्ग प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र को छाया प्रति संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष्य
--	--	--	---

"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE:  
सहायता हेतु किसे गये विनती का उद्देश्य:

Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/डॉक्टर से जारी की गई प्रतिवेदन सूची संलग्न
	<b>RE - Cataract</b>
	<b>LE - Cataract</b>
	<b>Surgery - (LE) - SICS + PMMA</b>

ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES  
इस उद्देश्य को हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया है?

Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED ली गई सहायता राशी
1.	<b>BBCS</b>	<b>2000/-</b>

